

GOODRICKE GROUP LIMITED

CIN-L01132WB1977PLC031054

Registered Office: 'Camellia House', 14, Gurusaday Road, Kolkata 700 019

Telephone: (033)2287-3067 / 2287-8737 / 2287-1816

Fax: (033) 2287-2577 / 2287-7089

Email: goodricke@goodricke.com Website: www.goodricke.com

Extract of the statement of standalone unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2022

Particulars	(Rs. in Lacs)		
	3 Months ended 30.06.2022	3 Months ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2022
	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Revenue from operations	19494	17275	82312
2 Profit before tax	706	904	918
3 Net profit after tax	557	904	527
4 Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	(17)	(100)	431
5 Paid up equity share capital	2160	2160	2160
6 Other equity			30084 (as on 31.03.2022)
7 Earnings per share of Rs.10/- each (basic and diluted)	2.58	4.19	2.44

The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the BSE Limited website (www.bseindia.com) and on the website of the Company (www.goodricke.com)

The Standalone Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors of the Company held on 12th August, 2022.

For Goodricke Group Limited

A. Asthana

Managing Director & CEO

(DIN- 00631932)

Place : Kolkata

Date : August 12, 2022

AYOKI MERCHANTILE LIMITED

CIN: L17120MH1985PLC034972

Registered Office: Laxmi Commercial Centre, Room No.405, 4th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 028 Email: ayokimerchantile@gmail.com Website: www.ayokimerchantile.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Sr. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30.06.2022 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	4.00	7.46	16.51
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extra Ordinary Items)	(2.14)	1.03	(0.61)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and / or Extra Ordinary Items)	(2.14)	1.03	(0.61)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and / or Extra Ordinary Items)	(2.14)	1.03	(0.61)
5	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.14)	1.03	(0.61)
6	Paid Up Equity Share Capital (FV of Rs.10/- each)	24.50	24.50	24.50
7	Other Equity			
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (a) Basic Rs. (b) Diluted Rs.	(0.87) (0.87)	0.42 0.42	(0.25) (0.25)

Notes: 1 The Financial Results have been reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 12th August, 2022. The above results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

2 The above is an extract of the detailed format of Quarter ended financial result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial results of the Quarter ended 30th June, 2022 are available on stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.ayokimerchantile.com)

3 Figures for the Previous period /quarter have been rearranged/re-grouped wherever necessary, to confirm with the figures for the current year/quarter.

For and on behalf of the Board

For Ayoki Merchantile Limited

Sd/-

Managing Director

DIN: 08069899

Place: Mumbai

Date: 12th August 2022

SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN: L17301RJ1934PLC002761

Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawaninandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082; Email: complianceofficer@silinvestments.in Website : www.silinvestments.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 30 JUNE, 2022

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Year Ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Total Income from Operations	(129)	1739	328	4899
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(360)	1390	253	4107
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(360)	1390	253	4107
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(405)	1184	188	3338
5	Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(59248)	39872	44378	112730
6	Paid-up Equity Share Capital ( Face Value of ₹ 10/- per share )	1061	1061	1061	1061
8	Earnings per share before / after extraordinary items (of ₹ 10/- each) (not annualised) (Rs.) a) Basic : b) Diluted :	(3.81) (3.81)	11.08 11.08	1.74 1.74	31.16 31.16

Key information on Standalone Financial Results

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Year Ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Total Income from Operations	(142)	1571	270	4281
2	Profit before tax	(358)	1224	193	3542
3	Profit After Tax	(390)	1060	148	2912
4	Total Comprehensive Income	(49751)	17143	30906	74676

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation-33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for The Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2022 are available on website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com; www.nseindia.com) and the Company's website (www.silinvestments.in).

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 12<sup>th</sup> August, 2022.

By Order of the Board


For SIL Investments Limited

(C.S. Nopany)

Chairman

Place: Kolkata

Date: 12<sup>th</sup> August, 2022



ENCORE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED (“ENCORE ARC”)

having Registered office at Caddie Commercial Tower, Regus Business Centre, 5th Floor, Aerocity(Dial), New Delhi – 110037 and Corporate Office at 5th Floor, Plot No. 137, Sector – 44, Gurugram - 122002 Haryana. Tel No +91,124 -4527200. http://www.encorearc.com/

E– AUCTION CUM SALE OF PROPERTIES

Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer (AO) of Encore ARC Pvt Ltd., an Asset Reconstruction Company registered with Reserve Bank of India under the provisions of the SARFAESI ACT, 2002, has acquired from the banks/financial institutions mentioned below the financial assets and has acquired the rights of the Secured Creditor. The assets will be sold on “As is where is”, “As is what is”, and Whatever there is basis as per the brief particulars given hereunder as per below mentioned schedule:

Sr. No.	Name of Borrower/Co-Borrower/ Guarantor	Trust Name	Immovable Secured Assets	Total Outstanding	Earnest Money Deposit (EMD)	Details for NEFT/RTGS	Reserve Price	Type of Possession
(1)	M/s. Fourway Filtrations through its prop. Mr. Balkrishna Rajaram Shinde (Borrower) Guarantor: • Mr. Ashish Balkrishna Shinde • Mr. Abhijit Balkrishna Shinde	EARC-BANK-015-TRUST Scheme-DNSBL	"All that piece and parcel of Plot No. 74 out of the sanctioned layout of Gat No. 411, Urawade, Taluka Mulshi, Pune and within the limits of Zilla Parishad Pune, Taluka Panchyat Samiti Mulshi and within local Grampanchayat limits of Urawade, admeasuring 364 Sq.Mtr together with construction carried /to be carried out thereon and bounded as under : East : Plot No. 75, West: Plot No. 73, South : Canal, North : Road,	Rs. 59,43,475/- as on 10.05.2022 and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc	5,00,000/-	Beneficiary Name- EARC -BANK – 015 -Trust Account Number- 575 000 00 325 504 IFSC Code- HDFC0001720	50,00,000/-	Symbolic Possession
(2)	Mr. Nandkishor Gangadhar Maosalkar (Borrower)  Mrs. Sunita Nandkishor Maosalkar (Co-borrower)	EARC-BANK-016-TRUST-NKGSB Scheme	All that piece and parcel of Row House No. A-11, admeasuring 109.80 sq mtrs in “Jabinda Residency”, CTS no. 20755, Gut No. 33, Shahnoorwadi, Aurangabad, Landmark: Darga Road, within the limits of Aurangabad Municipal corporation owned by Mr. Nandkishor Gangadhar Maosalkar Together with proportionate rights in the land under the building and with right to use and avail common areas and facilities and with right of ways and easements and parking made available to the said premises	Rs. 94,70,590/- as on 10.05.2022 and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc	4,20,000/-	Beneficiary Name- EARC BANK 016 TRUST Account Number- 5750000325645 IFSC Code- HDFC0001720	42,00,000/-	Symbolic Possession
(3)	M/s. Jaycee Services Prop. Mr. Preshit Chandrasekhar Ghanekar (borrower)  Guarantor: 1) Mr. Narendra Maruti Bhoir 2) Mr. Tejas Vilas Kamble 3) Mr. Ankit Amritlal Patel	EARC-BANK-009-TRUST-Scheme-KJSBL	Shop No. 06 adm. 361 sq ft on the ground floor in the building known as “Gardodia Apartment- C Co-operative Housing Society Ltd. ” on the piece of parcel of land situated at Survey No. 251, (Part-B) sub divided plot no. 1 admeasuring 2659.13 sq mtrs at Pachpakadi, Thane within the limits of Thane Municipal corporation (in the name of Preshit Chandrasekhar Ghanekar) and the said plot of land is bounded as follows: On or towards the East- Gardodia Apartment, On or towards the West- S.J. Refrigerators Shop no. 5, On or towards the south- part of C wing of Gardodia Apartment, On or towards the North-Anand Enclave & Main Road	Rs. 2,11,97,880/- and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc	4,40,000/-	Beneficiary Name- EARC BANK 009 TRUST Account Number- 50200030037465 IFSC Code- HDFC0001720	44,00,000/-	Symbolic Possession

Brief Information Regarding Auction Process:

1 Auction Date	29.08.2022	5 Last Date for submission of EMD	28.08.2022
2 Place for Submission of Bids and Place of Auction	E-auction		
3 Web-Site For Auction	https://sarfaesi.auctiontiger.net	6 Time of Inspection	10 a.m. – 6 p.m.
4 Contact Persons with Phone Nos.	Prakash Choudhary, Mob: 9712668557	From 13.08.2022 to 28.08.2022	

- A bidder shall participate in the online auction by making an application in the prescribed format which is available along with the offer document on the website address mentioned herein above. Online bidding shall take place at the website and shall be subject to the terms and condition contained in the tender document. The tender document and detailed terms and conditions can be downloaded from our website i.e. . http://www.encorearc.com/. Please note that sale shall be subject to the terms and conditions as stated in the Bid document. The sale shall be strictly subject to the terms and conditions incorporated in this advertisement and in the prescribed Bid document/Tender document. The Authorized officer reserve the right to reject any/all bids without assigning any reasons. The details related to Encumbrance, if any, with respect to the above mentioned properties are given under terms and conditions as provided in Encore ARC's website i.e. . propertyforsale.com.
- All payments including EMD to be made by way of NEFT / RTGS as per details mentioned above.
- For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Encore ARC's website i.e. http://www.encorearc.com/.
- Interested bidders may contact Authorized officer of Encore ARC on Mobile No. 9930171113/ 9993021940 or dharmendra.maurya@encorearc.com & soumitra.acharya@encorearc.com for any further information/ query.

Place: Gurugram

Date: 10.08.2022

SD/ Authorised Officer  
Encore ARC



AXIS BANK LTD.

Retail Asset Center : Axis bank Ltd, Retails Asset Dept., 1st Floor, Mazda Towers, Opp ZP.GPO Road, Trambak Naka, Nashik-422001

Registered Office: “Trishul”, 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad –380006

Public Notice for Auction / Sale

Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties are mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on “As is where is”, “As is what is” and “Whatever there is” basis on below mentioned dates for recovery of the sum mentioned below due to the following secured creditors. The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned below. Please refer the appended auction schedule for necessary details :-

Auction Schedule & Loan Details			
Names & Address of Borrower/ Guarantor / Mortgager	1) B.P. Trading Company (Partnership Firm /Borrower) Through its Partners, Gat No.109, Kakad Mala, A/P. Malegaon, Tal. Sinnar, Dist- Nashik- 422103. 2) Akhilesh Badri Prasad Jaiswal (Co-Borrower), Plot No. 26, Near Rachit Apartment, Rajiv Nagar, Wadala Pathardi Road, Nashik- 422010. Also At - Plot No. 17, Opp. Akshay Apartment, Shriram Colony, Nashik- 422009. 3) Badri Prasad Mangi Jaiswal (Guarantor/Mortgagor), Plot No. 26, Near Rachit Apartment, Rajiv Nagar, Wadala Pathardi Road, Nashik- 422010. Also At - Bottle Samrat, 893/1/2, 2C, Near SIMENS Colony, Indira Nagar, Pathardi Road, Nashik- 422009. Also At - Flat No. 11, 4th Floor, B-Wing, Gokarna Sahaniwas Apartment, Plot No.7,Nashik Shiwar, Indira Nagar, Opp. Guru Govind Singh College, Nashik- 422009. Also At - Flat No. A-8, 4th Floor, A-Wing, Gokarna Sahaniwas Apartment, Plot No.7,Nashik Shiwar, Indira Nagar, Opp. Guru Govind Singh College, Nashik- 422009.	1) Mrs.Kiran Vikas Chhajlane, 2) Mrs. Daya Rajendra Makwana, House No. 24, M.N.C. Quarter,Near Valdevi River,Walmiki Nagar, Mahatma Gandhi Dham, Deolali Gaon, Nashik Road, Nashik – 422101. Also At - Nashik Municipal Corporation, Health Department, Opp. State Bank, Near Durga Devi Mandir, Nashik Road, Nashik – 422101. Also At- Flat No. 09, Haripooja Apartment, Near NMC School, Pimpalpatti Mala, Jail Road, Nashik Road, Panchak Shiwar, Nashik - 422101.	1) Ravindra Dnyaneshwar Suryawanshi (Borrower / Mortgagor), 2) Rupali Ravindra Suryawanshi (Co-Borrower), Plot No. 28, S. No. 224/A, Swami Vivekanand Nagar, Ashok Nagar, Satpur, Nashik- 422007. Also At- Flat No. 10, Anu Arya Heights, A Wing, Near Cabon Naka, Near Shriram Bungalow, Pimpalgaon Bahula, Nashik- 422007.
Description of Property	All that piece and parcel of Flat No. B-11, admeasuring 96.20 Sq. Mtr., on 4th Floor, B-Wing, Gokarna Sahaniwas Apartment, Plot No.7, admeasuring 710.50 Sq. Mtr., S. No. 893/5/1/8, Indira Nagar, Mouja Nashik, Taluka & Dist. Nashik, within the limits of Nashik Municipal Corporation, alongwith 7.34% undivided share & intrest in the property and bounded as: East – Entrance & Stair Case, West – Side Margin, South – Side Margin, North – Side Margin.	All that piece and parcel of Flat No. 9 on Second Floor admeasuring built up area 43.21 Sq. Mtr. in a building known and styled as “HARI POOJA APARTMENT” constructed on Plot No. 19 of Survey No. 62/1A+1B situated at Mauje Panchak, Tal and Dist- Nashik and within the limits of Nashik Municipal Corporation and bounded as - East – Common Staircase & Flat No. 7, West – Marginal Space & Compound Wall, South – Marginal Space & Colony Road, North – Marginal Space.	All that piece and parcel of Flat No. 10, Stilt Third Floor admeasuring Carpet area 40.03 Sq. Mtr. having built up area approximate 560.00 Sq. Ft. i.e. approximate 52.04 Sq. Mtr. In building known and styled as ‘ANU ARYA HEIGHTS-A Wing’ situated at Plot No. 151, 152, 153 of Gat No. 196/A, Village- Pimpalgaon Bahula, Taluka and Dist- Nashik and within the limits of Nashik Municipal Corporation, Nashik and bounded as - East – Flat No. 10/A of Stilt Third Floor, West – Side Margin, South – Anu Arya Heights –B’ Wing Building , North – Staircase,
Reserve Price & EMD	Reserve Price : Rs. 28,35,000/- & EMD : Rs 2,83,500/-	Reserve Price : Rs. 9,30,000/- EMD : Rs.93,000/-	Reserve Price : Rs. 11,30,000/- EMD : Rs.1,13,000/-
Known Encumbrances	Not known to the secured creditor. The unpaid charges towards electricity, maintenance, Tax etc. if any, as applicable	Not known to the secured creditor. The unpaid charges towards electricity, maintenance, Tax etc. if any, as applicable	Not known to the secured creditor. The unpaid charges towards electricity, maintenance, Tax etc. if any, as applicable
Bid Incremental Amount	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
Last Date, Time And Venue For Submission of Bids With Sealed Offer / Tender With EMD	Upto 26/08/2022 till 5.00 p.m. at Axis Bank Ltd., Retails Asset Dept., 1st Floor, Mazda Towers, Opp. ZP. GPO Road, Trambak Naka, Nashik-422001	Upto 26/08/2022 till 5.00 p.m. at Axis Bank Ltd., Retails Asset Dept., 1st Floor, Mazda Towers, Opp. ZP. GPO Road, Trambak Naka, Nashik-422001	Upto 26/08/2022 till 5.00 p.m. at Axis Bank Ltd., Retails Asset Dept., 1st Floor, Mazda Towers, Opp. ZP. GPO Road, Trambak Naka, Nashik-422001
Date, Time, Venue For Opening of Bids.	On 29/08/2022 at 11.00 a.m. 12.00 p.m. with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above.	On 29/08/2022 at 12.00 p.m. to 01.00 p.m. with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above.	On 29/08/2022 at 2.00 p.m. to 3.00 p.m. with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above.
Inspection of Properties	As per prior appointment of Authorised Officer of the Bank	As per prior appointment of Authorised Officer of the Bank	As per prior appointment of Authorised Officer of the bank
Cost of Tender / Bid Cum Auction Form	Rs. 250/- by D.D. / Pay Order in favour of “Axis Bank Ltd” payable at Nashik	Rs. 250/- by D.D. / Pay Order in favour of “Axis Bank Ltd” payable at Nashik	Rs. 250/- by D.D. / Pay Order in favour of “Axis Bank Ltd” payable at Nashik
Return of EMD of Unsuccessful Bidders	Within Seven working days from the date of Auction.	Within Seven working days from the date of Auction.	Within Seven working days from the date of Auction.
Last Date For Payment of 25% of Accepted Highest Bid For Confirmed Successful Bidder (Inclusive of EMD)	The payment should be made latest by next working day from the date of bid confirmation.	The payment should be made latest by next working day from the date of bid confirmation.	The payment should be made latest by next working day from the date of bid confirmation.
Last Date For Payment of Balance 75% of Highest Bid	Within 15 days from the date of bid/Sale Confirmation	Within 15 days from the date of bid/Sale Confirmation	Within 15 days from the date of bid/Sale Confirmation
Date of Demand Notice U/SEC. 13(2) of SARFAESI Act	07/05/2019	29/08/2018	29/05/2017
Amount of Demand Notice U/s- 13(2) of SARFAESI Act (in Rs.)	Rs. 42,97,534 /- (Rupees Forty Two Lakh Ninety Seven Thousand Five Hundred Thirty Four Only) being the amount due as on 06/05/2019.	Rs. 9,80,313/- (Rupees Nine Lakh Eighty Thousand Three Hundred Thirteen Only) being the amount due as on 27/08/2018	Rs. 12,12,737/- (Rupees Twelve Lakh Twelve Thousand Seven Hundred Thirty Seven Only) being the amount due as on 29/05/2017
Date of Physical Possession	24/01/2022	27/01/2022	06/03/2020
Publication Date of Possession Notice	29/01/2022	30/01/2022	11/03/2020

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail.

For inspection of the properties or for any other assistance, the intending bidders may contact Bank Officer Mr. Yogesh Patil during office hours from 9:30 a.m. to 5:00 p.m at Mob. 919371154748 or mail on E-mail ID: yogesh15.patil@axisbank.com.

The bid is not transferable.

Date : 11/08/2022, Place : Nashik

Sd/-

Authorized Signatory



